



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2837] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 31, 2015/पौष 10, 1937
No. 2837] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 31, 2015/PUSHA 10, 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2015

का.आ. 3559(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 984(अ), तारीख 4 मई, 2011, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में तारीख 4 मई, 2011 को प्रकाशित की गई थी, में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है अथवा:—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में आंशिक संशोधन करते हुए, कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-4 की हावेरी से बेलगाम सेक्शन के 340.000 कि.मी. से 515.000 को चार लेन का बनाने के लिए, भूमि अर्जन कें संबंध में “विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, चित्रदुर्गा” शब्दों, अक्षरों और कोष्ठकों के स्थान पर “विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, धारवाड़” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. भाराप्र/एलए/3(a)/कर्नाटक/बंगलौर]
माया प्रकाश, निदेशक

पाद टिप्पणी :— मूल अधिसूचना का.आ. 624(अ), तारीख 3 जुलाई, 2000 को प्रकाशित की गई थी और बाद में उसके अधिक्रमण की अधिसूचना का.आ. 984(अ), तारीख 4 मई, 2011 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), में तारीख 4 मई, 2011 के तहत प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2015

S.O. 3559(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the

Government of India in Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 984 (E), dated the 4th May 2011, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-Section (ii), dated the 4th May 2011, namely:—

In partial modification of the aforesaid Notification, for the words, letters and brackets "The Special Land Acquisition Officer, National Highways Authority of India, Chitradurga", the words "Special Land Acquisition Officer, National Highways Authority of India, Dharwad", shall be substituted, for the land acquisition of Four laning of Haveri to Belgaurn Section from km. 340.000 to km . 515.000 of NH 4 in the State of Kamataka.

[F. No. NHAI/LA/3(a)/KNT/BNG]

MAYA PRAKASH, Director

Foot Note: The Principal notification was published vide S.O. 624(E) dated 03-07-2000 and subsequent amendment notification was published *vide* S.O. 984(E), dated the 4th May, 2011, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 4th May, 2011.